



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1226]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 7, 2009/श्रावण 16, 1931

No. 1226]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 7, 2009/SRAVANA 16, 1931

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2009

का.आ. 2067(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आन्ध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 का निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उक्त अनुसूची के स्तंभ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित जिलों, तालुकों, पुलिस थानों और गांवों से संबंधित उक्त अनुसूची के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भू-खण्ड के संबंध में इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से अनुसूची के स्तंभ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

आन्ध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 पर भूमि अर्जन

क्रम	सक्षम प्राधिकारी	भू-खण्ड	जिला	तालुक/मण्डल	पुलिस थाना	गाँव का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	राजस्व मंडल अधिकारी, ऐलूरु	कि. मी. 1023/980 से कि. मी. 1053/230 और कि. मी. 1055/680 से कि. मी. 1058/040	वेस्ट गोदावरी	1. भीमडोलू 2. देन्दुलूरु 3. ऐलूरु	भीमडोलू देन्दुलूरु ऐलूरु	गुंडुगोलनु (1) कोमिरेपल्ली (2) सिगवरम (3) पेतुनूरु (4) देन्दुलूरु (5) सोमवरप्पाडु (1) मल्कापुरम (2) तंगेल्लमूडि (3) चोडिमेल्ला (4) सेनिवरपुपेटा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				4. पेदवेगि	पेदवेगि	(1) दोन्डपाडु (2) दुगिराला (3) अम्मपालेम (4) भोगापुरम
				5. पेदापाडु	पेदापाडु	(1) वेमपुडु (2) वट्लूरु (3) गोगुलपाडु (4) कोक्करपाडु (5) कलपरु (6) ताल्लमूडि (7) ईपूरु
2	राजस्व मंडल अधिकारी, नूजिवीडु	कि. मी.1053/ 230 से कि.मी. 1055/680 और कि.मी. 1058/ 040 से कि.मी. 1084/600	कृष्णा	1. बापुलपाडु	बापुलपाडु वीरवल्लि	(1) बोम्मलूरु (2) बापुलपाडु (3) वेलेरु (4) सेरिनरसन्नपालेम (5) वीरवल्लि (6) कोडूरुपाडु (7) अंपापुरम
				2. उंगुदूर	उंगुदूर	(1) तेलप्रोलू (2) पोट्टिपाडु (3) आतुकूरु (4) पेददअवुटुपल्लि
				3. गन्नवरम	गन्नवरम	(1) चिन्नअवुटुपल्लि (2) गन्नवरम (3) केसरपल्लि
3.	उप- कलेक्टर विजयवाड़ा	कि. मी.1084/ 600 से कि.मी. 1100/694 और 432/650 कि.मी. 434/150 चिल्कलूरिपेट -विजयवाड़ा सेक्शन, एन. एच.-5	कृष्णा	1. विजयवाड़ा (रुरल)	पटमट	(1) गूडवल्लि (2) दोने-आतुकूरु (3) नीडमानूरु (4) एनिकेपाडु (5) प्रसादमपाडु (6) रामवरप्पाडु
				2. विजयवाड़ा (अर्बन)	माचवरम पटमट क्रिष्णलंका माचवरम	(1) गुनदल (2) पटमट (3) विजयवाड़ा पार्ट (4) मोगलाजपुरम

[फा. सं. भाराराप्रा/15021/6-लेन/बीओटी/2008/तक/जीएम(सीके-1)]

प्रभाकर, उप-सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th August, 2009

S.O. 2067(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed hereto as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication in the Official Gazette, in respect to the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to District, Taluks, Police Stations and Villages mentioned in columns (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for building (widening/six laning, etc.), maintenance, management and operation of the National Highway No. 5 in the State of Andhra Pradesh.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. 5 in the State of Andhra Pradesh

Sl. No.	Competent authority	Stretch of land authority	District	Taluk/Mandal	Police Station	Name of the village
1	2	3	4	5	6	7
1.	Revenue Divisional Officer, Eluru	Km. 1023/980 to Km. 1053/230 and 1055/680 to Km. 1058/040	West Godavari	1. Bhimadolu 2. Denduluru 3. Eluru 4. Pedavegi 5. Pedapadu	Bhimadolu Denduluru Eluru Pedavegi Pedapadu	Gundugolanu (1) Komirepalli (2) Singavaram (3) Pothunuru (4) Denduluru (5) Somavarappadu (1) Malkapuram (2) Tangellamudi (3) Chodimella (4) Senivarapupeta (1) Dondapadu (2) Duggirala (3) Ammapalem (4) Bhogapuram (1) Vempadu (2) Vathuru (3) Gogulapadu (4) Kokkirapadu (5) Kalaparru (6) Tallamudi (7) Epuru
2.	Revenue Divisional Officer, Nuziveedu	Km. 1053/230 to Km. 1055/680 and 1058/040 to Km. 1084/600	Krishna	1. Bapulapadu 2. Ungutur 3. Gannavaram	Bapulapadu Veeravalli Ungutur Gannavaram	(1) Bommuluru (2) Bapulapadu (3) Veleru (4) Serinarasannapalem (5) Veeravalli (6) Kodurupadu (7) Ampapuram (1) Telaprolu (2) Pottipadu (3) Athukuru (4) Pedda Avutupalli (1) Chinna Avutupalli (2) Gannavaram (3) Kesarapalli

1	2	3	4	5	6	7
3.	Sub-Collector Vijayawada	Km. 1084/600 to Km. 1100/694 & Km. 432/650 to Km. 434/150 Chilakaluripet Vijayawada Section, NH5	Krishna	1. Vijayawada (Rural)	Patamata	(1) Gudavalli (2) Done-Atukuru (3) Nidamanuru (4) Enikepadu (5) Prasadampadu (6) Ramavarappadu
				2. Vilayawada (Urban)	Machavaram Patamata Krishnalanka Machayaram	(1) Gunadala (2) Patamata (3) Vijayawada Part (4) Moghal Rajapuram

[F. No. NHAI/15021/6-lane/BOT/2008/Tech/GM (CK-1)]

PRABHAKAR, Dy. Secy.